



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३ ७]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर ७, १९७७/अश्विन १५, १८९९

No. 317]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 1977/ASVINA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF PETROLEUM

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 1977

G.S.R. 633(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 read with section 12 of the Caltex [Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] Act, 1977 (17 of 1977), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Caltex [Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] (Administration of Funds) Rules, 1977

(2) They shall come into force at once

2. **Administration of funds pending constitution of trusts.**—The moneys standing to the credit of a provident fund, superannuation fund, welfare fund or other fund established by Caltex (India) for the benefit of the persons employed by it in connection with its undertakings in India and which have been transferred to and vested in the Government company under sub-section (1) of section 12 of the Caltex [Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Limited] Act 1977 (17 of 1977), shall, until the constitution of one or more trusts as referred to in sub-section (3) of that section be dealt with by the Government company in accordance with the provisions of the rules and regulations applicable to, or of any law governing, the respective provident fund, superannuation fund, welfare fund or other fund and in force immediately before the 30th day of December, 1976.

[No F R-43013/1/77-MC]

C. VENKATARAMANI, Jt. Secy.

(1973)

## पेंडोलि म मंत्रालय

अविसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1977

सां० फा० नि० 633 (अ) —केन्द्रीय साधार, कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के शेयरो तथा कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1977 (1977 का 17) की धारा 12 के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के शेयरो तथा कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] (निधियों का प्रशासन) नियम, 1977 है।

(2) ये दुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. व्याजों के गठन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के द्वारा निधियों का प्रशासन :— कालटेक्स (इण्डिया) द्वारा भारत में अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों की प्रसुविधा के लिए स्थापित भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, कल्याण निधि, या अन्य निधि के खाते में जमा धन के सम्बन्ध में जो कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के शेयरो तथा कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] अधिनियम, 1977 (1977 का 17) की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन सरकारी कम्पनी को अन्तर्गत और उसमें निहित किया गया है, संध्यवहार, जब तक उस धारा की उपधारा (3) में यथा निर्दिष्ट एक या अधिक न्यास गठित नहीं हो जाते, सम्बन्धित भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, कल्याण निधि, या अन्य निधि को लागू नियमों और विनियमों या उसे शासित करने वाली किसी विधि के, जो 30 दिसम्बर, 1976 के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, उपबन्धों के अनुसार उस सरकारी कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

[सं० फा० आर० 43013 1 77-एम सी]

सी० वेक्टरमणि, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977